



## GRAVITA INDIA LTD.

Corp. Office :Gravita Tower, A-27 B, Shanti Path,  
Tilak Nagar, JAIPUR-302004, Rajasthan (INDIA)  
Phone : +91-141-2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491  
Web : [www.gravitaindia.com](http://www.gravitaindia.com)  
CIN:- L29308RJ1992PLC006870

**01<sup>st</sup> November, 2023**  
**GIL/2023-24/110**

To,

The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001 Fax No.: 022-22721919  Scrip Code- 533282	The Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex Bandra(east) Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-2659 8120 Company Code- GRAVITA
--	---

Dear Sir / Madam,

**Subject: Submission of copy of Newspaper Advertisement of Financial Results**

Pursuant to Regulation 47(3) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. We hereby enclosed copies of newspaper advertisement published regarding extract of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2023 in following newspaper:

1. Financial Express (English Edition)
2. Business Standard (English Edition)
3. Economic Times (English Edition)
4. Nafa Nuksan (Hindi Edition)
5. Business Remedies(Hindi edition)

This is for your information and record.

Yours Faithfully  
For **Gravita India Limited**

**Nitin Gupta**  
**(Company Secretary)**  
**FCS-9984**

**Encl: As above**

**Regd. Office:**

'SAURABH', Chittora Road, Diggi-Malpura Road  
Tehsil: Phagi, JAIPUR- 303 904, Raj. (INDIA)  
Phone: +91-141-2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491  
Email: [companysecretary@gravitaindia.com](mailto:companysecretary@gravitaindia.com)

**SHREE RENUKA SUGARS LIMITED**  
 CIN: L01542KA1995PLC019046  
 Regd. Office: 2<sup>nd</sup> & 3<sup>rd</sup> Floor, Kanakashree Arcade, CTS No. 10634,  
 JNMC Road, Nehru Nagar, Belagavi - 590010, Karnataka  
 Tel: 0831-2404000 | Fax: 0831-2404961  
 Website: www.renukasugars.com  
 E-mail: groupcs@renukasugars.com / einward.ris@kfintech.com

**NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE**  
 The following Share Certificate of the Company has been reported as lost/misplaced and the holder of the said Share Certificate has requested the Company for issue of Duplicate Share Certificate. Notice is hereby given that the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate to the below mentioned person unless a valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice and no claims will be entertained by the Company with respect to the original Share Certificate after the issue of duplicate thereof.

Sr. No.	Name of the Shareholder	Folio No.	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive No.	
					From	To
1.	Katarki Ramanna Basappa	SRS0004628	10,000	180863	665027409	665037408

Any person who has a claim in respect of the said certificate should lodge his/her claim with all supporting documents with the Company at its Registered / Corporate Office. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the appearance of this notice, the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate to the person listed above and no further claim would be entertained from any person(s).

Date : 30<sup>th</sup> October 2023  
 Place : Mumbai  
 For Shree Renuka Sugars Limited  
 Deepak Manerikar  
 Company Secretary

**TRAVANCORE TITANIUM PRODUCTS LIMITED**  
 Thiruvananthapuram - 695 021  
 Email id: purchase@travancoretitanium.com, contract@travancoretitanium.com

**E-TENDER NOTICE**  
 E-tenders are invited from Experienced Contractors / Firms in TWO BID system for the following work in T.T.P.L. Tenders can be submitted only by online through the portal [www.etenders.kerala.gov.in](http://www.etenders.kerala.gov.in)

Name of Work :-  
 Clearing and Forwarding Agents  
 Tender ID :- 2023\_TTPL\_615701\_1  
 Due date :- 07.11.2023

For more details & tenders please visit our web site [www.travancoretitanium.com](http://www.travancoretitanium.com)  
 Sd/-  
 Head of Department (Commercial)

## PRAJ INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27101PN1985PLC038031  
 Regd. Office: "Praj Tower", S. No. 274 & 275/2,  
 BHUMKAR CHOWK - HINJEWADI ROAD, HINJEWADI,  
 PUNE - 411 057



### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2023.

(Rupees in million except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30 September 2023 (Unaudited)	Half Year ended 30 September 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 September 2022 (Unaudited)
1	Revenue from operations	8823.685	16190.912	8806.172
2	Net profit for the period before tax	848.121	1625.154	657.778
3	Net profit for the period after tax	623.679	1210.405	481.286
4	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	587.940	1174.007	455.236
5	Paid up equity share capital (Face value Rs. 2/- each)	367.426	367.426	367.414
6	Earnings per share (of Rs. 2/- each)			
	1. Basic (not annualised)	3.40	6.59	2.62
	2. Diluted (not annualised)	3.40	6.59	2.62

**Notes:**  
 1 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 31 October 2023.  
 2 The group operates only in one segment, i.e. "Process and Project Engineering".  
 3 The Standalone unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30 September 2023 are summarized below:

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30 September 2023 (Unaudited)	Half Year ended 30 September 2023 (Unaudited)	Quarter ended 30 September 2022 (Unaudited)
a	Revenue from operations	7,832.629	14,331.531	7,982.414
b	Net profit for the period after tax	841.332	1,333.024	640.854
c	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	810.760	1,304.083	619.198
d	Earnings per share (of Rs. 2/- each)			
	1. Basic (not annualised)	4.58	7.26	3.49
	2. Diluted (not annualised)	4.57	7.25	3.49

4 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended on 30 September 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July 2016. The full format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website at [www.praj.net](http://www.praj.net)

Place : Pune  
 Date : 31 October 2023

SHISHIR JOSHIPURA  
 CEO AND MANAGING DIRECTOR  
 DIN: 00574970

**bharti** **BHARTI TELECOM LIMITED**  
 (CIN: U32039HR1985PLC032091)  
 Regd. Office: Airtel Centre, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram - 122015, Haryana  
 Tel.: -91-124-4222222, Email id: compliance.officer@bharti.in, Website : www.bhartitelecom.in

### Statement of standalone Financial Results for the quarter ended September 30, 2023

(Regulation 52(8) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations))

(All amounts are in million of Indian Rupees unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Standalone		
		For the quarter ended		For the year ended
		September 30, 2023	September 30, 2022	March 31, 2023
		Audited	Audited	Audited
1.	Total income from operations	8,787	6,012	6,097
2.	Net profit/ (loss) for the quarter/year (before Tax, exceptional and/or extraordinary items #)	5,404	4,997	(1,832)
3.	Net profit/ (loss) for the quarter/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items #)	5,404	4,997	(1,832)
4.	Net profit/ (loss) for the quarter/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items #)	3,634	3,485	(3,045)
5.	Total comprehensive income/ (loss) for the quarter/year [comprising profit / (loss) for the quarter/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3,634	3,485	(3,045)
6.	Paid up equity share capital (face value of Rs.10/- each)	25,823	25,823	25,823
7.	Other equity / Reserves (excluding Revaluation Reserve)	20,792	26,748	20,510
8.	Securities Premium Account	36,267	36,267	36,267
9.	Net worth	82,882	88,838	82,600
10.	Paid up debt capital / outstanding debt	161,386	155,511	162,351
11.	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-
12.	Debt equity ratio	1.95	1.75	1.96
13.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
a)	Basic:	1.41	1.35	(1.18)
b)	Diluted:	1.41	1.35	(1.18)
14.	Capital redemption reserve	Nil	Nil	Nil
15.	Debt Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil
16.	Debt service coverage ratio	259.98%	597.21%	48.53%
17.	Interest service coverage ratio	259.98%	597.21%	76.80%

# - Exception and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

**Notes:**  
 a) The above is an extract of the detailed format of quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly audited financial results are available on the websites of the Stock Exchange [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of the Company i.e. [www.bhartitelecom.in](http://www.bhartitelecom.in).  
 b) For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on the URL ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).  
 c) The impact of net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

For Bharti Telecom Limited  
 Sd/-  
 Devendra Khanna  
 Managing Director  
 DIN: 01996768

Place : New Delhi  
 Date : October 31, 2023

**GRAVITA**  
 AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**GLOBAL FOOTPRINT**  
 Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**12 ECO CONSCIOUS**  
 State-of-the-art Manufacturing Facilities


**RECYCLING DNA**  
 31 Years | 5 Business Verticals | Providing Turnkey Solutions & Consultancy for Recycling Industry

**Recycling**  
 For A Better Tomorrow

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision :

**"To be the most valuable company in the recycling space globally."**

**We recycle to save environment**



Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023 (Rs. in Crores)

S.no	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	850.31	726.74	689.61	1,577.05	1,319.62	2,893.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.84	52.55	44.98	111.39	89.63	204.09
5	Total Comprehensive Income for the period	53.63	50.19	42.07	103.82	82.87	203.75
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						575.12
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)						
(a)	Basic:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72
(b)	Diluted:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72

Key Numbers of Unaudited Standalone Financial Results (Rs. in Crores)

	2023	2022	2023	2022	2023	2022
1	705.31	653.87	618.17	1,359.18	1,121.27	2,524.39
2	50.63	47.94	20.72	98.57	41.00	116.25
3	43.51	38.72	16.43	82.23	32.76	101.15

**NOTES:**  
 a) The above is an extract of the detailed format of quarter / half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter / half year ended results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). The same is also available on the website of the company viz. [www.gravitaindia.com](http://www.gravitaindia.com)  
 b) Exception and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.  
 c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31<sup>st</sup> October, 2023.

Place : Jaipur  
 Date : 31<sup>st</sup> October, 2023

Gravita India Limited  
 CIN: L29308RJ1992PLC006870  
 Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod,  
 Digg Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
 Telephone: +91-141-4057700 | Email: companysecretary@gravitaindia.com  
 Website: [www.gravitaindia.com](http://www.gravitaindia.com)

For Gravita India Limited  
 Sd/-  
 Yogesh Malhotra  
 Whole-time Director & CEO  
 DIN : 05332393

## Kaynes Technology India Limited

(formerly known as Kaynes Technology India Private Limited)  
 Regd. Off. 23 -25, Belagola Food Industrial Estate, Metagalli P.O., Mysore - 570 016, India.  
 website: [www.kaynestechnology.co.in](http://www.kaynestechnology.co.in) email: [kaynestechcs@kaynestechnology.net](mailto:kaynestechcs@kaynestechnology.net)  
 Corporate Identity Number : L29128KA2008PLC045825. Ph. No. +91821- 2581753



### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND HALF YEAR ENDED 30<sup>TH</sup> SEPTEMBER 2023

Particulars	Quarter ended			Six Months ended		Year ended 31 <sup>st</sup> March 2023 (Audited)
	30 <sup>th</sup> September 2023 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> June 2023 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2022 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2023 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2022 (Audited)	
Revenue from operations	3,608.45	2,971.77	2,731.69	6,580.22	4,724.36	11,261.14
Net profit before exceptional items and tax	394.08	318.61	288.89	712.69	423.28	1,260.39
Net profit before tax	394.08	318.61	288.89	712.69	423.28	1,260.39
Net profit from ordinary activities after tax	323.09	246.49	210.01	569.58	310.47	951.96
Total comprehensive income for the period attributable to	317.20	248.47	220.73	565.67	320.57	954.92
shareholders [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]						
Paid-up equity share capital (Face value of Rs.10 each)	581.42	581.42	461.58	581.42	461.58	581.42
Earnings per share (not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(annualised)
(a) Basic	5.55	4.23	4.52	9.78	6.48	19.84
(b) Diluted	5.55	4.23	4.46	9.78	6.40	19.61

#### 1) Key standalone financial information

Particulars	30 <sup>th</sup> September 2023 (Unaudited)	Quarter ended		Six Months ended		Year ended 31 <sup>st</sup> March 2023 (Audited)
		30 <sup>th</sup> June 2023 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2022 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2023 (Unaudited)	30 <sup>th</sup> September 2022 (Unaudited)	
Revenue from operations	2,915.46	2,905.93	2,626.30	5,821.39	4,543.02	10,865.57
Profit before tax	309.35	319.09	264.80	628.44	421.50	1,245.17
Profit after tax	254.12	251.93	189.89	506.15	312.39	947.61

2) The statement of unaudited standalone and consolidated financial results ("the Statements") of Kaynes Technology India Limited ("the Company") for the quarter ended 30<sup>th</sup> September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on 31<sup>st</sup> October 2023. The above Statements have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The reports of the Statutory Auditors are unqualified.

3) The Statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of The Companies Act, 2013 and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchanges' websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.kaynestechnology.co.in](http://www.kaynestechnology.co.in).

By Order of the Board of Directors  
 For Kaynes Technology India Limited

SD/-  
 Savitha Ramesh  
 (Chairperson & WTD)  
 DIN: 01756684  
 Place: Mysuru  
 Date: 31<sup>st</sup> October 2023

# Global rice prices may not ease till '25: World Bank

Cotton association says yield in 2023-24 may drop 7.2%; Isma expects high gross sugar output

**SANJEEB MUKHERJEE**  
New Delhi, 31 October

Global rice prices are not expected to cool down significantly before 2025 due to export curbs imposed by major producing nations and a continuing threat of El Niño, the latest World Bank Global Commodity Outlook said.

The report, which was released recently, also said that global rice prices that averaged 28 per cent higher in 2023 than in 2022 are expected to increase by another 6 per cent in 2024. This is partly due to the threat of El Niño, policy response from significant exporters and importers, and the geographical and market concentration of rice production and exports.

This should ring some alarm bells in India, which is starting at a drop in domestic kharif rice production in 2023, due to low monsoon in August.

The Centre has already clamped down on export of rice from India thus wiping off almost 40 per cent supplies from the world markets.

Overall, the report said, agricultural prices are forecast to fall by 7 per cent in 2023 and a further 2 per cent in 2024 and 2025 owing to ample supplies.

## Onion's average price rises to ₹53.75 per kg

Onion continued to be costly in the national capital on Tuesday as the average retail price remained at ₹78 per kilogram even as the wholesale prices in the key supplying state of Maharashtra started cooling down after the imposition of export curbs. The all-India average retail onion prices increased by ₹3.40 per kg to ₹53.75 per kg on Tuesday from yesterday, according to the latest official data. PTI

The report also mentioned that maize prices are expected to end the current year at 22 per cent below their levels in 2022, and decline further by 8 and 4 per cent in 2024 and 2025.

On wheat, the World Bank said that global wheat prices are trending on an average 20 per cent lower in 2023 than the 2022 levels, and should decrease further by about 3 and 5 per cent in 2024 and 2025, respectively.

The World Bank said sugar and cocoa prices are expected to decline from their 2023-highs, though fruit prices should remain high in 2024 on weather-affected supply shortfalls.

On fertilisers, the outlook said prices are expected to decrease as more supplies become available online, but they are like-

ly to stay above historical averages due to some supply constraints and China's ongoing export restrictions.

**Cotton:** Domestic cotton production in 2023-24 season, that started in October, is expected to drop to around 29.51 million bales (1 bale=170 kilograms) from 31.8 million bales in the 2022-23 season (a fall of 7.23 per cent), due to low yield because of drought in some major growing states and impact of pest attack, the Cotton Association of India (CAI) said in its first official estimate released on Tuesday.

However, trade sources said if domestic demand remains at around 31.1 million bales, then India might be able to export around 1.4 million bales as opening stocks are at around 2.9 million bales. But if textile mills operate to their full capacity, domestic cotton production might fall short of demand.

**Sugar:** The Indian Sugar Mills Association (Isma), in its first estimate for the 2023-24 sugar season that started from October today, said gross production without accounting for diversion of ethanol is expected to be around 33.7 million tonnes, which is more than 36.6 million tonnes last year.

Consumption this year is expected to be around 27.8 million tonnes. On the diversion towards ethanol, Isma said that it will declare only after feedstock-wise ethanol procurement price for ethanol supply year 2023-24.

# 'EPCG: Doubts persist over maintaining annual average exports of services'



**CHATROOM**

T N C RAJAGOPALAN

We refer to Para 5.04(c) of the FTP 2023, which stipulates that under the EPCG scheme the annual average exports of same or similar products for preceding three years is required to be maintained. In the related customs notification no.26/2023-Cuss dated April 1, 2023 also, at Explanation C (i), the reference is to annual average exports of same or similar products during the preceding three years. They make no reference to services. Does it mean that the annual average exports need not be maintained for export of services?

Your inference is not incorrect. However, at S.No.4 of the application form for EPCG authorisations ANF-5A, the exporter is required to give FOB Value of exports/services rendered for the same/similar product/services (INR) for preceding three years. So, you have to give those details and invariably, the annual average exports will get endorsed as a condition in the EPCG authorisation. In the CA certificate format prescribed at Appendix-5B, there is a reference to export of services but in the table at S.No.VI, the details of previous three years exports called for refer only to export of same/similar products and not export of services. You can take a view that the provisions in the forms ANF-5A/Appendix-5B cannot bind you to maintain the previous three years annual average exports of services, when Para 5.04(c) of the FTP and the related Customs exemption notification do not refer to previous three years exports of services

but you may not make much headway with the authorities.

We refer to condition (vii) introduced at import policy condition 4 of Chapter 84 of ITC (HS) through the commerce ministry notification no.38/2023 dated October 19, 2023. It says that private entities importing the said IT hardware for supply to central government or agencies, undertakings owned and controlled by central government, for defence or security purposes are exempted from the requirement of authorisation. So, can we import computers, laptops etc. without an authorisation and supply to public sector undertakings by furnishing to the Customs their end-use certificate that the said IT hardware items are required for the purposes of security of their plant, administrative premises and residential colonies? In my opinion, you can do so for supply to undertakings that are owned and controlled

by the central government. It is, however, better to seek a clarification whether the import for supply to the undertakings that are partly owned but controlled by the central government are also covered under the said exemption.

Can we reject the documents received under LC on the grounds that although the description of goods given in the invoice is as per LC, it also contains additional data? If the description in the invoice along with the additional data appears to refer to a different nature, classification or category of the goods, then you can reject the documents. The normal rule is to ignore any additional data provided the additional data does not conflict with the data in the LC or other documents.

Business Standard invites readers' SME queries related to GST, export and import matters. You can write to us at [smechat@bmail.in](mailto:smechat@bmail.in)

FROM PAGE 1

## Hacking alert...

However, the minister termed the Opposition's attack on the government as the work of "compulsive critics" who were indulging in the politics of "distraction" because they could not tolerate the country's progress under the prime minister's (PM's) leadership.

Minister of State for IT, Rajeev Chandrasekhar stated that similar "threat notifications" were sent to people in over 150 countries by Apple.

Those who received Apple's notifications included Congress President Mallikarjun Kharge, party leaders Shashi Tharoor, Pawan Khera, K C Venugopal, Supriya Shrinete, T S Singhdeo, and Bhupinder S Hooda, as well as Trinamool Congress Member of Parliament (MP) Mahua Moitra, Communist Party of India (Marxist) General Secretary Sitaram Yechury, and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav.

Others who claimed they had received Apple's notifications included Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi, Aam Aadmi Party's Raghav Chadha, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen President Asaduddin Owaisi, some aides of Congress MP Rahul Gandhi, think tank Observer Research Foundation President Samir Saran, and an Officer on Special Duty with Delhi Chief Minister Kejriwal.

In his letter to the PM, Yechury expressed concern that remote access to his mobile phone may be used for "planting" information on his device, which could be used to "incrim-

inate" him. Raising the issue at a press conference in New Delhi, Rahul claimed that people in his office, several parties, and other Opposition leaders had received a warning. He suggested that it was part of the government's "distraction politics" related to the Adani issue.

"The hierarchy in the country is as follows: No. 1, Adani; No. 2, PM Modi; and No. 3, Amit Shah... Modi's soul is with Adani. The truth is that power is in the hands of someone else. As soon as Adani is touched, intelligence agencies are deployed for snooping," he said.

At an event in Lucknow, Akhilesh said, "It is a matter of regret that in a democracy, freedom and privacy are being harmed."

An email from Apple, which Tharoor shared on X, stated that the attackers were possibly picking on them individually because of "who you are or what you do".

Apple warned the politicians that if their devices were compromised by a State-sponsored attacker, these attackers might be able to remotely access their sensitive data, communications, or even the camera and microphone.

The email Tharoor shared contained a warning from Apple: "While it's possible that this is a false alarm, please take this warning seriously." The contents of the email are similar to the technology giant's statement on its website, posted on August 23.

"State-sponsored attacks are highly complex, cost millions of dollars to develop, and often have a short shelf life," as stated on its website. However, the company does not provide any information about what triggers the issuance of threat notifications, as revealing this information may help State-sponsored attackers adapt their behaviour to evade detection in the future.

## BS SUDOKU #4119

5		6				4		
		8				7		
4			2					
	6							7
3		1						
	4	2						3
2						8	3	9
9						6		7
		3		5				8

SOLUTION TO #4118

5	3	6	4	7	8	9	1	2
2	1	4	6	9	5	3	8	7
7	8	9	1	3	2	4	6	5
3	7	2	9	8	4	1	5	6
9	6	1	2	5	3	7	4	8
4	5	8	7	6	1	2	3	9
8	2	5	3	1	9	6	7	4
6	4	3	5	2	7	8	9	1
1	9	7	8	4	6	5	2	3

**Easy: ★★**  
**Solution tomorrow**

**HOW TO PLAY**  
Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

**Muthoot Vehicle & Asset Finance Ltd**  
CIN: U65910KL1992PLC006544

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2023**

₹ in lakhs

Particulars	For the quarter ended September 30, 2023	For the quarter ended September 30, 2022	For the year ended March 31, 2023
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from operations	1,390.21	1551.6	6,199.85
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	343.10	(156.98)	1,429.71
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	343.10	(156.98)	1,429.71
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	256.32	6.41	1,414.88
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	262.34	7.75	1,413.27
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Each)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
Other Equity excluding Revaluation Reserves	7,627.53	6,012.49	7,184.58
Securities Premium Account			
Net Worth	10,127.53	8,512.49	9,684.58
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	17,118.26	21,688.02	22,217.66
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
Debt Equity Ratio	1.69	2.55	2.29
Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic (Rs.)*	1.03	0.03	5.66
Diluted (Rs.)*	1.03	0.03	5.66
Capital Redemption Reserve	-	-	-
Debt Redemption Reserve	-	-	-
*Not annualised			

**Note :**  
a) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial result is available on the website of BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and the website of the Company ([www.mvaf.com](http://www.mvaf.com))  
b) For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE limited and can be accessed on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

Place: Kochi  
Date: 31.10.2023

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
George M Jacob  
Whole-time Director  
DIN : 00018955

**Muthoot Vehicle & Asset Finance Limited**  
Registered Office: Muthoot Chambers, Opp. Saritha Theatre, Banerji Road, Kochi, Ernakulam - 682 018, Kerala, India;  
Corporate Office: 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> Floor Midhun Tower, K P Vallon Road, Kadavanthra, Ernakulam - 682020, Kerala, India  
Corporate Identity Number: U65910KL1992PLC006544; Tel: +91 75938 64418  
Email: [cs@mvaf.com](mailto:cs@mvaf.com), Website: [www.mvaf.com](http://www.mvaf.com)  
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

**GRAVITA**  
AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**12 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
31 Years | 5 Business Verticals | Providing Turnkey Solutions & Consultancy for Recycling Industry

**Recycling For A Better Tomorrow**

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision :  
**"To be the most valuable company in the recycling space globally."**

**We recycle to save environment**

	Q2 FY23	Q2 FY24	Q2 FY23	Q2 FY24	Q2 FY23	Q2 FY24
<b>Revenue + 22%</b>	683	836				
<b>EBITDA + 23%</b>	65	80				
<b>PAT + 30%</b>	45	58				

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023 (Rs. in Crores)

S.No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	850.31	726.74	689.61	1,577.05	1,319.62	2,893.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional items and/or Extraordinary Items)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.84	52.55	44.98	111.39	89.63	204.09
5	Total Comprehensive Income for the period	53.63	50.19	42.07	103.82	82.87	203.75
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						575.12
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)						
(a) Basic:		8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72
(b) Diluted:		8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72

**Key Numbers of Unaudited Standalone Financial Results (Rs. in Crores)**

	Q2 FY23	Q2 FY24	Q2 FY23	Q2 FY24
1 Turnover (Net Sales)	705.31	653.87	618.17	1,359.18
2 Profit Before Tax	50.63	47.94	20.72	98.57
3 Profit After Tax	43.51	38.72	16.43	82.23

**NOTES:**  
a) The above is an extract of the detailed format of quarter / half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter / half year ended results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). The same is also available on the website of the company viz. [www.gravitaindia.com](http://www.gravitaindia.com)  
b) Exception and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.  
c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31<sup>st</sup> October, 2023.

**Place : Jaipur**  
**Date : 31<sup>st</sup> October, 2023**

Gravita India Limited  
CIN: L29308RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Digg Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91-141-4057700 | Email: [companysecretary@gravitaindia.com](mailto:companysecretary@gravitaindia.com)  
Website: [www.gravitaindia.com](http://www.gravitaindia.com)

For Gravita India Limited  
Sd/-  
**Yogesh Malhotra**  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05323293

## SHAKTIKANTA DAS says RBI well-equipped to handle any swings in foreign flows due to global bond index inclusion

# Q2 GDP Growth may Surprise on Upside: Guv

**Our Bureau**

**Mumbai:** The pace of India's economic expansion in the September quarter will likely exceed expectations, central bank governor Shaktikanta Das said Tuesday, underscoring the country's world-leading growth prospects that remain largely unaffected by a visible slackening in global trade and the steepest climb in risk-free rates since the Global Financial Crisis.

"I must qualify, because ultimately the numbers will tell for themselves — but looking at the momentum of economic activity, looking at a few early data points which have come in, a few early indicators, I can say that the second quarter GDP number, as and when it is released at the end of November, in all probability will surprise everyone on the upside," Das told delegates at a finance industry conclave in Mumbai.

The Reserve Bank of India (RBI)

has projected India's GDP growth at 6.5% for FY24. Its estimate for the Jul-Sep quarter GDP expansion is also set at 6.5%.


To be sure, India's economy expanded at 7.8% in the April-June period, versus the RBI's projection of 8%.

For 2023, The International Monetary Fund (IMF) has estimated India's economic growth at 6.3%, compared with 5% for China.

Speaking about JPMorgan's recent decision to announce the inclusion of Indian government bonds in its emerging market bond index, Das said that the RBI was well-equipped to handle any swings in foreign investment flows.

**BOND INDEX INCLUSION**

"It's a double-edged sword. The other hand, as you well know, there are lots of passive investors who are mainly influenced by your weightage in the index," Das said. "The reverse can also happen. When your weightage goes



**Overseas investors have greater confidence on India's and RBI's ability to service the outflow of currency...**

**SHAKTIKANTA DAS**  
Governor, RBI

BLOOMBERG

down, the passive funds will automatically move out or when there is some other development globally happening, there can be outflow of funds."

Late September, JP Morgan said that India would be included in its GBI-EM Global index suite starting June 28, 2024. India is expected to reach the maximum weight of 10% in the GBI-EM Global Diversified Index and the inclusion of domestic government bonds would be staggered over a 10-month period.

Given that the GBI-EM GD accounts for \$ 213 billion of the estimated \$236 billion benchmarked to the GBI-EM family of indices, India's inclusion could potentially attract foreign inflows worth \$20-25 billion.

"In this regard, I would like to mention that RBI has a track record over the years and especially in the recent period, of handling large-scale inflows and large-scale outflows," Das said.

"In terms of market sentiment, I think the overseas investors have greater confidence in India's ability, the RBI's ability, to service the outflow of currency... that was because of the reserves which we built up," he said.

## COULD RAISE ₹20,000-25,000 CRORE

# To Tap FPIs, Govt Plans to GIFT Wrap Masala Bond Issue

Centre and the RBI to take a final call soon

**Bhaskar.Dutta**  
@timesgroup.com

**Mumbai:** About a decade after the International Finance Corp helped facilitate the initial sale of masala bonds, New Delhi plans to test the waters with an initial bond sale worth around ₹20,000-25,000 crore.

Sources aware of the development told ET that in recent talks at the Gandhinagar-based GIFT City, the government, the Reserve Bank of India (RBI) and investors had discussed early plans regarding the quantum of the bond sale and other operational matters.

"The early-stage discussions are on for a debut issuance of around ₹20,000-25,000 crore. The government is looking to tap into FPI interest in Indian bonds in the GIFT city," said a source. "While diversifying the sources to borrowing, the government is also looking to raise funds through masala bonds at a lower rate of interest."

A masala bond, named after India's spices-based signature cuisine, refers to an offshore sovereign bond issue denominated in rupees. North Block has so far restricted its borrowing programme only to local investors, with foreign players permitted investment within certain limits. Full overseas investment is permitted only in a few specified securities that are eligible for inclusion in global indices.

To be sure, since the bonds are denominated in rupees, overseas investors carry the risk of adverse currency movements.

Large global banks such as Deutsche Bank and Standard Chartered Bank have branches in the GIFT City. Many of the global banks are custodians of foreign investment flows.

On Tuesday, reports quoted International Financial Services Centres Authority Chairman K. Rajara-



man as saying that the government was looking at the issuance of a masala bond at the GIFT City and that the Centre and the RBI would take a final call. He did not provide a proposed quantum of issuance.

The IFSCA is the regulator of the GIFT International Financial Services Centre.

While Indian corporate entities have issued masala bonds, the government so far has not taken such a step. Since the COVID pandemic, the government's borrowing has ballooned as the Centre had expanded its fiscal deficit to increase spending and support the economy through the crisis.

In FY24, the government has announced a record high gross borrowing programme of Rs 15.43 lakh crore. While domestic bond yields have remained well-anchored over the past year despite monetary tightening by the RBI, yields have hardened over the past month as the central bank has said it will conduct open market bond sales to drain out liquidity durably from the banking system.

### Market Trends

STOCK INDICES	% CHANGE
Nifty 50	19080 <b>0.32</b>
S&P Sensex	63875 <b>0.37</b>
MSCI India	1281 <b>0.21</b>
MSCI EM	2357 <b>0.52</b>
MSCI BRIC	541 <b>0.90</b>
MSCI World	12646 <b>0.16</b>
Nikkei	30859 <b>0.53</b>
Hang Seng	17112 <b>1.69</b>
Kospi(S.Korea)	2278 <b>1.41</b>
Straits Times	3068 <b>0.11</b>

OIL (\$/BRL)	DUBAI CRUDE
86.66	2.63

GOLD RATE	US (\$/Oz)	India (₹/10Gm)
OPEN	2005.60	61117.00
LAST	2007.60	61269.00
Prev chg (%)	0.10	-0.02


FOREX RATE (₹-₹ Exchange Rate)	OPEN	LAST
	83.24	83.26

\*At 6 pm IST Source: Bloomberg, MCX, ETIG  
Market on Twitter@ETMarkets

## FPIs Offload ₹25,000 cr of Indian Stocks in Oct in EM Risk-off Move

### Second highest monthly selloff in 2023; FPIs selling across EMs, say analysts

**Ruchita.Sonawane**  
@timesgroup.com



**Mumbai:** Foreign Portfolio Investors (FPIs) dumped Indian stocks worth over ₹25,000 crore in October — their second highest selling in a month in 2023 so far — as uncertainties over higher US Treasury yields and tensions in the Middle East have prompted them to cut their bets on riskier Emerging Markets.

Money managers and analysts said flows in November will depend on whether the risk-off sentiment persists though historically equities here have mostly seen foreign purchases during the month in the past decade.

In the past 10 years, overseas investors have purchased stocks here on seven occasions in November, while sold thrice.

The US Treasury yields stood at

4.84% on Tuesday, after crossing 5% on October 23 for the first time since 2007. Analysts said that whenever US treasury yields rise, Foreign Portfolio Investors (FPIs) tend to sell out from riskier asset classes such as emerging markets.

"Investors are cautious on Emerging Markets due to the negative sen-

timent which has impacted the US as well, with investors turning towards cash and bonds," said Dan Kemp, global chief investment officer, Morningstar Investment.

Apart from the rising US yields, analysts said an escalation of the Israel-Hamas conflict could fuel further caution among investors.

"If the conflict leads to disruption in trade routes and supply chains, then inflation is likely to go up which means rates will be higher for longer," Amar Ambani, head of institutional equities, YES Securities.

Analysts said that foreign investors are selling across emerging markets, not just in India. In such times, safe-haven assets and stronger currencies are preferred by foreign investors as currencies of emerging markets come under pressure. "Emerging Markets are out of favour with foreign investors, but the trend is cyclical in nature," Kemp said.

## Oil Gains as Further ECB Hikes Unlikely

**HOUSTON:** Oil prices edged higher on Tuesday as a drop in euro zone inflation buoyed hopes that the European Central Bank has almost certainly finished raising interest rates, and offset rising supply from OPEC and the United States.

Brent crude futures for December delivery, were 31 cents, or 0.4% higher at \$87.76 ahead of their expiry later on Tuesday. The more heavily traded January contract rose 11 cents, or 0.1%, to \$86.47. - Reuters

## GRAVITA

AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

- GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents
- 12 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities
- RECYCLING DNA**  
31 Years | 5 Business Verticals | Providing Turnkey Solutions & Consultancy for Recycling Industry

**Recycling**  
For A Better Tomorrow

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision:

**"To be the most valuable company in the recycling space globally."**

**We recycle to save environment**

**Revenue + 22%**

Q2 FY23: 683  
Q2 FY24: 836

**EBITDA + 23%**

Q2 FY23: 65  
Q2 FY24: 80

**PAT + 30%**

Q2 FY23: 45  
Q2 FY24: 58

S.No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	850.31	726.74	689.61	1,577.05	1,319.62	2,893.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.84	52.55	44.98	111.39	89.63	204.09
5	Total Comprehensive Income for the period	53.63	50.19	42.07	103.82	82.87	203.75
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						575.12
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)						
	(a) Basic:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72
	(b) Diluted:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72

	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
1 Turnover (Net Sales)	705.31	653.87	618.17	1,359.18	1,121.27	2,524.39
2 Profit Before Tax	50.63	47.94	20.72	98.57	41.00	116.25
3 Profit After Tax	43.51	38.72	16.43	82.23	32.76	101.15

**NOTES:**

a) The above is an extract of the detailed format of quarter / half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter / half year ended results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the website of the company viz. www.gravitaindia.com

b) Exception and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31<sup>st</sup> October, 2023.

**Place : Jaipur**  
**Date : 31<sup>st</sup> October, 2023**

Gravita India Limited  
CIN: L29308RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Diggai Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91-141-4057700 | Email: companysecretary@gravitaindia.com  
Website: www.gravitaindia.com

**For Gravita India Limited**  
Sd/-  
**Yogesh Malhotra**  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05332393

## VEDANT FASHIONS - LIMITED -

(Formerly known as Vedant Fashions Private Limited)  
CIN: L51311WB2002PLC094677

Regd. Office: Paridhan Garment Park, 19 Canal South Road, SDF-1, 4th Floor, A501-A502, Kolkata 700015, WB, India  
Tel No.: (033) 6125 5495, Email: complianceofficer@manyavar.com, Website: www.vedantfashions.com

**I. Statement of Unaudited Consolidated Financials Results for the quarter and half year ended September 30, 2023**

(All amounts are in INR Million, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended		Half Year ended		Year ended
	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1 Revenue from operations	2,183.01	2,469.24	5,299.18	5,718.77	13,549.30
2 Total income from operations (including other income)	2,334.14	2,566.37	5,600.14	5,887.02	13,951.71
3 Net profit/(loss) for the period/year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	647.75	925.20	1,885.84	2,284.43	5,758.39
4 Net profit/(loss) for the period/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	647.75	925.20	1,885.84	2,284.43	5,758.39
5 Net profit/(loss) for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	487.23	690.20	1,406.68	1,698.91	4,291.08
6 Total comprehensive income/(loss) for the period/year after tax	499.08	695.13	1,436.00	1,696.81	4,327.46
7 Equity Share Capital	242.80	242.70	242.80	242.70	242.78
8 Other Equity	-	-	-	-	13,756.02
9 Earnings per equity share (EPS) (face value of share of INR 1 each)*					
Basic (in INR per share)	2.01	2.84	5.79	7.00	17.68
Diluted (in INR per share)	2.01	2.84	5.79	7.00	17.68

\* EPS is not annualised for the quarter and half year ended September 30, 2023 and September 30, 2022.

**II. Statement of Unaudited Standalone Financials Results for the quarter and half year ended September 30, 2023**

(All amounts are in INR Million, unless otherwise stated)

Particulars	Quarter ended		Half Year ended		Year ended
	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1 Revenue from operations	2,178.61	2,419.63	5,290.79	5,591.37	13,259.64
2 Total income from operations (including other income)	2,326.52	2,514.29	5,585.48	5,755.23	13,630.06
3 Net profit/(loss) for the period/year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	650.29	923.02	1,892.02	2,268.52	5,670.32
4 Net profit/(loss) for the period/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	650.29	923.02	1,892.02	2,268.52	5,670.32
5 Net profit/(loss) for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	489.88	689.60	1,413.17	1,688.91	4,228.91
6 Total comprehensive income/(loss) for the period/year after tax	501.73	694.53	1,442.49	1,686.81	4,265.24
7 Equity Share Capital	242.80	242.70	242.80	242.70	242.78
8 Other Equity	-	-	-	-	13,707.69
9 Earnings per equity share (EPS) (face value of share of INR 1 each)*					
Basic (in INR per share)	2.02	2.84	5.82	6.96	17.42
Diluted (in INR per share)	2.02	2.84	5.82	6.96	17.42

\* EPS is not annualised for the quarter and half year ended September 30, 2023 and September 30, 2022.

**Notes**

1 The above are extracts of the detailed format of Unaudited Financial Results (Consolidated and Standalone) for the quarter and half year ended September 30, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.vedantfashions.com).

2 The above Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on October 31, 2023.

**For Vedant Fashions Limited**  
Sd/-  
**Ravi Modi**  
Chairman and Managing Director  
DIN : 00361853

**Place: Kolkata**  
**Date: October 31, 2023**

एलजी ऑडियो स्पीकर सीरीज लॉन्च



एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में उन्नत बैटरी लाइफ के साथ एक नई ऑडियो स्पीकर सीरीज 'एलजी एक्सबूम' लॉन्च की। एलजी एक्सबूम में दो मॉडल - एक्सएल 7एस और एक्सएल 5एस शामिल हैं, जो 54,990 रुपये और 44,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होंगे। उत्कृष्ट विशेषताओं, मजबूत ध्वनि और मनमोहक प्रकाश प्रभावों के साथ नई एलजी एक्सबूम सीरीज समारोहों, अवसरों और रोजमर्रा के आनंद लेने वालों के लिए शीर्ष पसंद के रूप में तैयार है। एलजी एक्सबूम में एक्सएल 7एस की बैटरी लाइफ 20 घंटे तक है, जबकि एक्सएल 5एस की बैटरी लाइफ 12 घंटे है। दोनों स्पीकर में आईपीएक्स 4 वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग है। इससे एक गिटार भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने स्वयं के ध्वनिक संगीत कार्यक्रम की मेजबानी कर सकते हैं।

झीप न्यूज...

विस्तारा ने हांगकांग के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की

नई दिल्ली/एजेंसी। विस्तारा एयरलाइंस ने दिल्ली और हांगकांग के बीच रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू की हैं। एयरलाइन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विस्तारा का ए321नियो विमान रविवार को रात 9.05 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई और सोमवार को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि रूट पर ए321नियो विमान अपनी असाधारण विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें बिजनेस क्लास में फ्लैट बेड के साथ आरामदायक बैठने की व्यवस्था, आंतरिक सज्जा, इन-फ्लाइट वायरलेस कनेक्टिविटी और एक अत्याधुनिक मनोरंजन सिस्टम विथ लाइव टीवी शामिल है। विस्तारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि हांगकांग के लिए सीधी कनेक्टिविटी की शुरुआत हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप है। हांगकांग दुनिया के शीर्ष वाणिज्यिक केंद्रों में से एक है। यह एक पॉपुलर लीजर डेस्टिनेशन के अलावा, भारत से बहुत सारे व्यवसाय और वीएफआर यात्रा को आकर्षित करता है। हमें इस मार्ग पर यात्रा करने वाले ग्राहकों को बेहतरीन एयरलाइन में उड़ान भरने का विकल्प प्रदान करते हुए खुशी हो रही है और हमें विश्वास है कि वे हमारे विश्व स्तरीय उसेवाओं की सराहना करेंगे।



थर्ड क्वार्टर में गोल्ड डिमांड 10% बढ़ी

नयी दिल्ली/एजेंसी। भारत में चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में सोने की मांग 10 प्रतिशत बढ़कर 210.2 टन हो गई। विश्व स्तर पर परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने यह जानकारी दी। दुनिया में सोने के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत में सोने की कीमतों में नरमी और फेरिटव डिमांड के कारण इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सोने की मांग बढ़ी है। डब्ल्यूजीसी के क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत) ने कहा कि गत तिमाही में सोने की कीमतों में थोड़ी नरमी आई लेकिन अब इसमें तेजी आनी शुरू हो गई है। अगले दो महीनों में धनरेस त्योहार और शादी के सीजन का असर कीमतों पर पड़ेगा। सोने की मांग पर त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करते हुए, डब्ल्यूजीसी ने कहा कि 2023 वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की सोने की मांग बढ़कर 210.2 टन हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 191.7 टन थी। रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षाधीन तिमाही में आभूषणों की मांग सात प्रतिशत बढ़कर 146.2 टन से 155.7 टन हो गई, जबकि सोने की छड़ तथा सिक्के की मांग 20 प्रतिशत बढ़कर 45.4 टन से 54.5 टन हो गई। तीसरी तिमाही में भारत का सोने का आयात बढ़कर 220 टन हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 184.5 टन था। चौथी तिमाही में सोने की मांग तीसरी तिमाही के समान ही रहने की उम्मीद है। अगर कीमतों में और बढ़ोतरी नहीं हुई तो यह थोड़ी बेहतर होगी। वहीं सोने की मांग 2023 की तीसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर छह प्रतिशत घटकर 1,147.5 टन रह गई।

फेयरवर्क इंडिया रैंकिंग में बिगबास्केट शीर्ष पर

नयी दिल्ली/पीटीआई। अस्थायी (गिंग) श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों के मामले में डिजिटल मंच ओला और पोर्टर के डिजिटल श्रम मंचों के बीच सबसे कम अंक मिले हैं। इस रेटिंग में टाटा के स्वामित्व वाली बिगबास्केट ने शीर्ष पर रही है। 'फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2023' के तहत भारत के 12 डिजिटल श्रम मंच का मूल्यांकन किया गया। ये मंच घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल, लॉजिस्टिक, खाद्य वितरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। इनमें अमेज़ॉन फ्लेक्स, बिगबास्केट, ब्लूस्मार्ट, डुंजो, फ्लिपकार्ट, ओला, पोर्टर, स्विगी, उबर, अर्बन कंपनी, जेटो और जोमैटो शामिल हैं। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल, किसी भी मंच को अधिकतम 10 में छह से अधिक अंक हासिल नहीं हुए हैं। बिगबास्केट को सबसे ज्यादा छह अंक मिले हैं। इसके बाद ब्लूस्मार्ट, स्विगी, अर्बन कंपनी और जोमैटो को 5-5 अंक मिले। जेटो को 10 में चार, फ्लिपकार्ट को तीन, अमेज़ॉन फ्लेक्स को दो और डुंजो तथा उबर को एक-एक अंक मिले। ओला और पोर्टर को शून्य अंक मिले। फेयरवर्क ने इन मंच का मूल्यांकन पांच सिद्धांतों के आधार पर किया। ये सिद्धांत हैं- उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, निष्पक्ष प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व।



आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान टेलीविजन एड वॉल्यूम 24% बढ़ा

नई दिल्ली/एजेंसी। वर्ष 2019 की तुलना में आईसीसी मैन वर्ल्ड कप 2023 में टेलीविजन एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम 24 प्रतिशत बढ़ गया है। टैम स्पोर्ट्स डेटा के अनुसार फर्स्ट 23 मैचों में एड वॉल्यूम चौबीस फीसद बढ़े हैं। 145 न्यू कैटेगरीज और 165 नये ब्राण्ड्स इस बार टेलीविजन विज्ञापनदाताओं में स्पेस ले रहे हैं। बॉडी फ्रेमिंग, कार, डिजिटल वॉलेट, गेमिंग, एंटेर्टेनमेंट साफ्ट ड्रिंक्स, जैसी पांच कैटेगरीज आगे चल रही हैं। एड वॉल्यूम का 33 प्रतिशत शेयर इन टॉप फाइव कैटेगरीज के पास है। टैम मीडिया के अनुसार काउंट ऑफ़ कैटेगरी, एडवर्टाइजर्स, ब्राण्ड्स 29 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 24 प्रतिशत बढ़े हैं। यह तुलना वर्ष 2019 वर्ल्ड कप से की गई है। डेटा के अनुसार 165 नये ब्राण्ड्स



विज्ञापन कर रहे हैं। टॉप फाइव एडवर्टाइजर्स में विनी कॉस्मेटिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एफएक्स मार्ट, हिंदुस्तान यूनीलीवर, कोका-कोला शामिल हैं। मैच के दौरान इनके विज्ञापन सबसे ज्यादा देखने में आ रहे हैं। इनका शेयर करीब 32 प्रतिशत है। फर्स्ट 23 मैच में यह स्थिति रही है। आईसीसी मैन वर्ल्ड कप 2023 के दौरान नई कैटेगरीज में एयरलाइंस, फुटबियर, कन्स्यूमर ड्यूरेबल्स, पेंट्स शामिल हुए हैं। इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन फेरिटव सीजन के साथ चल रहा है। ऐसे में ब्राण्ड्स को ज्यादा दिखने का मौका मिला है। इसका भरपूर लाभ लेना चाहते हैं। डिजनी स्टार के अनुसार फर्स्ट 18 मैचों को करीब 362 मिलियन दर्शकों ने लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देखा है। यह बड़ी संख्या है, इसलिये ब्राण्ड्स कन्स्यूमर की नजर में आने के लिए लालाहित दिख रहे हैं।

'फूड प्रोडक्ट्स वेस्टेज रोकने के लिए हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल'



नयी दिल्ली/पीटीआई। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने करीब तीन अरब टन खाद्य पदार्थ की वैश्विक स्तर पर बर्बादी रोकने के लिए विकसित और विकासशील देशों की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। करंदलाजे ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भोजन की हानि और बर्बादी रोकने पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने में सामाजिक संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है और भोजन की बर्बादी को कम करने के तौर-तरीके अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए। एक सरकारी बयान के अनुसार, कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि दक्षिण एशिया भोजन का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्र है और भोजन का नुकसान और बर्बादी को कम करना नैतिक जिम्मेदारी और आर्थिक जरूरत दोनों हैं। उन्होंने कहा कि भोजन की बर्बादी न केवल उपभोक्ताओं के लिए सीधा नुकसान है, बल्कि इसका पर्यावरण और सहायक अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ता है। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने, कुशल कटाई और भंडारण, स्मार्ट वितरण, उद्योग की भागीदारी, दान और खाद्य बैंक, खाद्य पैकेजिंग आदि में नवाचार का भी आह्वान किया। जर्मनी स्थित थ्युने इंस्टीट्यूट के शोध निदेशक स्टीफन लैंग ने कहा कि भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए इससे नुकसान और बर्बादी को रोकना सबसे जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार भोजन की हानि और बर्बादी को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सहयोगात्मक प्रयास शुरू करने में सभी पड़ोसी देशों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एफएसएसआई ने मिलावट रोकने के लिए बढ़ाई निगरानी

नयी दिल्ली/एजेंसी। दिवाली के त्योहार दौरान मिठाइयों में मिलावट की जांच करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने देशभर में अपने 4,000 राज्य स्तरीय अधिकारियों को मिठाई खुदरा विक्रेताओं और बनाने वालों की निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। भारत में सबसे अधिक मिलावट दूध में की जाती है और अधिकतर मिठाइयां दूध के उत्पादों से ही बनाई जाती हैं। एफएसएसआई के सीईओ जी. कमला वर्धन राव ने 'ईट राइट समिट' में कहा कि आमतौर पर दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अधिकारियों को मिठाइयों में मिलावट की जांच के लिए निगरानी तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण करने और गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने एकत्र करने के लिए कहा गया है। उनसे गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है। इस बीच, एफएसएसआई ने इस साल निगरानी नमूनों की संख्या बढ़ाकर एक लाख कर दी है और अगले साल यह बढ़कर सात लाख हो जाएगी। राव ने साथ ही बताया कि दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण में करीब 10,000 नमूने एकत्र किए जाएंगे। यह सर्वेक्षण एक महीने में पूरा हो जाएगा।

एप्पल मैकबुक प्रो 7 नवंबर से होंगे अवेलेबल

नयी दिल्ली/एजेंसी। एप्पल के नए मैकबुक प्रो लैपटॉप तथा आईमैक, एम3 चिपसेट के साथ सात नवंबर से भारत सहित 27 देशों में उपलब्ध होंगे। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल से गेमिंग, मनोरंजन पेशेवरों और हाई-रिजॉल्यूशन फोटो की आवश्यकता वाले अन्य क्षेत्रों पर नजर रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू आर्किटेक्चर और तेज सीपीयू के साथ तीन एम 3 चिपसेट मॉडल जारी करने की घोषणा की। कंपनी ने 14 तथा 16 इंच डिस्प्ले वाले मैकबुक प्रो लैपटॉप के साथ दो मॉडल क्रमशः 1.69 लाख रुपये और 2.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर जारी किए हैं। सात नवंबर से यह एप्पल स्टोर पर उपलब्ध होंगे और एप्पल अधिकृत रिसेलर इसकी बिक्री कर पाएंगे।

**GRAVITA**  
AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**12 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
31 Years | 5 Business Verticals | Providing Turnkey Solutions & Consultancy for Recycling Industry


**Recycling**  
For A Better Tomorrow

At Gravita, we understand that responsible recycling not only creates sustainable value for the green economy but also for all our stakeholders. We have maintained a growth trajectory and are confident to keep progressing on our vision :  
"To be the most valuable company in the recycling space globally."

**We recycle to save environment**

जी हां, अब हैडफोन मापेगा हृदय की गति

एजेंसी। गूगल वैज्ञानिकों ने अतिरिक्त सेंसर जोड़ने या बैटरी लाइफ से समझौता किए बिना हियरेबल्स डिवाइस के साथ हार्ट की निगरानी के लिए ऑडियोप्लेथिस्मोग्राफी (एपीजी) का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जो हार्ट रेट को मापने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है। टीम ने 153 प्रतिभागियों के साथ स्टडी के दो राउंड आयोजित किए। परिणाम दिखाते हैं कि एपीजी लगातार सटीक हृदय गति (सभी गतिविधि परिदृश्यों में प्रतिभागियों में 3.21 प्रतिशत औसत त्रुटि) और हृदय गति परिवर्तनशीलता (अंतर-बीट अंतराल में 2.70 प्रतिशत औसत त्रुटि) माप प्राप्त करता है। लोग अक्सर हैडफोन और ईयरबड न केवल म्यूजिक सुनने के लिए पहनते हैं, बल्कि व्यायाम करने, फोकस करने या सिर्फ मूड एडजस्ट करने के लिए भी पहनते हैं। गूगल शोधकर्ताओं ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हमने एक नोवल एक्टिव इन-इयर हेल्थ सेंसिंग मोडैलिटी पेश की है। एपीजी अतिरिक्त सेंसर जोड़ने या बैटरी लाइफ से समझौता किए बिना, एएनसी हियरेबल्स को यूजर्स के फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स, जैसे हृदय गति और हृदय गति परिवर्तनशीलता को निगरानी करने में सक्षम बनाता है। एपीजी सीमा से 80 डीबी मार्जिन के साथ सुरक्षा नियमों का पालन करता है, और इसमें सभी स्कैन टोन शामिल हैं। कान कैनाल में निष्क्रिय श्रवण की सिग्नल क्लालिटी काफी हद तक ईयरबड सील स्थितियों पर निर्भर करती है। कमर्शियल एएनसी हैडफोन पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को निष्क्रिय सुनवाई पर निर्भर हेल्थ फीचर्स को एम्बेड करना चुनौतीपूर्ण है। प्रायोगिक वैज्ञानिक जियाओरान वान फेन और गूगल के निदेशक के अनुसार एपीजी एएनसी हैडफोन के स्पीकर के माध्यम से कम तीव्रता वाले अल्ट्रासाउंड जांच सिग्नल भेजकर उपरोक्त एएनसी हैडफोन हार्डवेयर बाधाओं को दूर करता है। यह सिग्नल इकोज को ट्रिगर करता है, जो ऑन-बोर्ड फीडबैक माइक्रोफोन के माध्यम से प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि छोटे कान के कैनाल स्कैन का विस्थापन और दिल की धड़कन के वाइब्रेशन्स अल्ट्रासाउंड इकोज को नियंत्रित करते हैं। फाइनल एपीजी वेवफॉर्म बिल्कुल फोटोप्लेथिस्मोग्राफ (पीपीजी) वेवफॉर्म के समान दिखता है, लेकिन अधिक स्पष्ट डाइक्रोमेटिक निशानों के साथ हृदय संबंधी गतिविधियों का एक बेहतर व्युत्पन्न करता है। अपने प्रारंभिक प्रयोगों के दौरान, उन्होंने देखा कि एपीजी खराब ईयरबड्स सील और म्यूजिक बजाने के साथ मजबूती से काम करता है। टीम ने कहा कि हमने देखा कि एपीजी सिग्नल कभी-कभी बहुत शोर कर सकता है और बॉडी मोशन से काफी बिगड़ भी सकता है।



S.No	Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations (Net)	850.31	726.74	689.61	1,577.05	1,319.62	2,893.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15	227.59
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.84	52.55	44.98	111.39	89.63	204.09
5	Total Comprehensive Income for the period	53.63	50.19	42.07	103.82	82.87	203.75
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						575.12
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72
(a) Basic:		8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72
(b) Diluted:		8.52	7.70	6.59	16.22	12.87	29.72

**Place : Jaipur**  
**Date : 31<sup>st</sup> October, 2023**

Gravita India Limited  
CIN: L29308RJ1992PLC006870  
Registered Office: Saurabh, Chittora Road, Harsulia Mod, Digi Malpura Road, Tehsil - Phagi, Jaipur 303904 (Raj.)  
Telephone: +91-141-4057700 | Email: companysecretary@gravitaindia.com  
Website: www.gravitaindia.com

For Gravita India Limited  
Sd/-  
Yogesh Malhotra  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05332393

# कैंटाबिल रिटेल इंडिया ने घोषित किए वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में राजस्व 14 फीसदी बढ़कर रहा 247 करोड़ रुपए छमाही में ईबिटा रहा 64 करोड़ रुपए छमाही में कर पश्चात शुद्ध लाभ 20 करोड़ रुपए कुल स्टोर संख्या: 482 स्टोर/ 35 नये स्टोर शामिल

**बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।** परिधानों की राष्ट्रीय स्तर पर रिटेल बिक्री करने वाली कंपनी कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड ने 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। 3 दशकों से अधिक की उपस्थिति के साथ कंपनी डिजाइनिंग, विनिर्माण के व्यवसाय में है और कैंटाबिल ब्रांडनेम के तहत परिधानों की ब्रांडिंग और खुदरा बिक्री करती है।

## वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में इस प्रकार रहे कंपनी के स्टैण्डलोन वित्तीय परिणाम:

- वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में अर्जित 116 करोड़ रुपए की तुलना में 16 फीसदी बढ़कर 135 करोड़ रुपए हो गया।

- वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए ईबिटा वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में अर्जित 31.3 करोड़ की तुलना में 29.6 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए के कंपनी का ईबिटा मार्जिन 21.9 फीसदी रहा।

- वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में कर पूर्व लाभ 8.8 करोड़ रुपए रहा और कर पूर्व लाभ मार्जिन 6.5 फीसदी रहा।

- वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में कर पश्चात शुद्ध लाभ 7.5 करोड़ रुपए और कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 5.5 फीसदी दर्ज किया गया।

**वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में वित्तीय प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2024 की



**विजय बंसल**  
(अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक)  
कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड

पहली छमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 217 करोड़ रुपए के मुकाबले 14 फीसदी बढ़कर 247 करोड़ रुपए अर्जित किया है। उक्त अवधि में कंपनी ने गत वित्त की समान अवधि में अर्जित 23.4 करोड़ रुपए के मुकाबले 19.8 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

**कंपनी का मुख्य फोकस:** - कंपनी की बढ़ती रिटेल उपस्थिति: अपनी खुदरा उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में अपनी रणनीति को जारी रखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 35 नए स्टोर जोड़े हैं, जिससे 30 सितंबर, 2023 को कुल मिलाकर 482 स्टोर हो गए। कंपनी प्रबंधन को अगले 2-3 वर्षों में अपने स्टोर की संख्या 700 से अधिक तक बढ़ाने की उम्मीद है और लक्ष्य विशेष महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की दुकानों पर फोकस बढ़ाकर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक अपनी पहुंच में सुधार करना है।



**- निर्माण क्षमताओं में सुधार:** कंपनी ने हाल ही में निवेश करके और नवीनतम मशीनरी जोड़कर सुविधा को उन्नत किया गया है। कंपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में और निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी मौजूदा स्थान के उसी स्थान के भीतर क्षमता को दोगुना करने की गुंजाइश प्रदान करता है।

**- कार्यकुशलता में सुधार:** कंपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के लिए लागत कम करने और दक्षता हासिल करने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ नई बहुस्तरीय वेयरहाउसिंग सुविधा में निवेश कर रही है, जिससे कम लागत, उच्च दक्षता और बेहतर इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन हो सके।

परिणामों और प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड के विजय बंसल, (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) ने कहा कि "विभिन्न बाजारों में कम मांग के माहौल कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में लचीला प्रदर्शन करते हुए 135 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई और 29.6 करोड़ रुपए का ईबिटा दर्ज किया है। आगे देखते हुए हम सावधानीपूर्वक आशावादी बने हुए हैं। हमारा ध्यान अपने उपभोक्तों को बेहतर मूल्य प्रदान करना, प्रतिस्पर्धी मात्रा में वृद्धि करना और

अपने ब्रांड के पीछे निवेश करना है। बाहरी मंदी के बावजूद, हमें विश्वास है कि हम विकास की रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ हम विवेकहीन खर्च करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे कंपनी के विकास पथ को दूसरी छमाही में और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

कंपनी ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान 35 स्टोर खोलकर विस्तार रणनीति के तहत अपने खुदरा पदचिह्न का विस्तार जारी रखा और अपने स्टोर को गति दी। हमने अपनी पहुंच को और अधिक विस्तारित करके अपने दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्राहकों के लिए और अधिक निकट और सुविधाजनक होने, सुदृढ़ करने के उद्देश्य से

हमारा ब्रांड वादा, नए बाजारों में विस्तार, विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण, खंड और श्रेणियां और ग्राहकों के लिए एक उन्नत खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करना रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था और दोनों की विकास संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फैशन परिधान क्षेत्र में, हम सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने मजबूत ब्रांड रिटॉल वैल्यू का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें विश्वास है कि कारोबार अच्छा चल रहा है और एक कंपनी के तौर पर हम गियर बदलने और ग्राहकों और शेयरधारकों को पर्याप्त मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार हैं।"

# सर्वोत्कृष्ट पावर सिस्टम्स ने फाइनैशियल ईयर 2024 की पहली छमाही में शानदार वित्तीय परिणाम घोषित किए, सालाना दर पर शुद्ध लाभ 536% बढ़ा

**बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।** सर्वोत्कृष्ट पावर सिस्टम्स लिमिटेड (एनएसई: सर्वोटेक), अत्याधुनिक सोलर प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जर के साथ-साथ पावर बैकअप और स्मार्ट पावर सॉल्यूशंस के एक प्रमुख



मेन्युफैक्चरर ने 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 30 अक्टूबर 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान अपनी प्रभावशाली फाइनैशियल परफॉर्मेंस का खुलासा किया। कंपनी ने रेवेन्यू में 115.2% की शानदार ग्रोथ देखी, जो फाइनैशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही में 8,659.09 लाख रुपये रही, जबकि फाइनैशियल ईयर 23 की दूसरी तिमाही में यह 4,023.96 लाख रुपये ही थी। ईवी (इलेक्ट्रिकल व्हीकल) डिवीजन में, कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की तेज और बढ़ती मांग के साथ बेहतर ईवी इंफ्रस्ट्रक्चर की बढ़ती आवश्यकता के कारण अपने

ईवी चार्जर्स की मजबूत डिमांड देखी। सोलर डिवीजन में, कंपनी ने बढ़ते फोकस की

वजह से ऊर्जा की जरूरतों के लिए सस्टेनेबल एनर्जी को अपनाया और अपने प्रोडक्ट्स के लिए लोकप्रियता हासिल करना जारी रखा। इसके अलावा, एबिटा ने फाइनैशियल ईयर 23 की दूसरी तिमाही में 240.50 लाख रुपये से बढ़कर फाइनैशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही में 148.2% की जबदस्त ग्रोथ प्रदर्शित की, जिसमें 91 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन एक्सपेंशन के साथ, बेहतर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की अधिक हिस्सेदारी थी। इसके अतिरिक्त, फाइनैशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ (PAT) 312.41 लाख रुपये रहा, जो फाइनैशियल ईयर 23

की दूसरी तिमाही में 78.04 लाख रुपये से अधिक है, इसी अवधि में मार्जिन 1.94% से बढ़कर 3.60% हो गया। यदि

पहली छमाही के प्रदर्शन के संदर्भ में बात करें तो, रेवेन्यू में 130.1% की वृद्धि हुई और फाइनैशियल ईयर 24 की पहली छमाही में यह 16,640.44 लाख रुपये हो गया, जबकि फाइनैशियल ईयर 23 की पहली छमाही में यह 7,230.48 लाख रुपये था। फाइनैशियल ईयर 23 की पहली छमाही में एबिटा 378.86 लाख रुपये से 245.8% बढ़कर फाइनैशियल ईयर 24 की पहली छमाही में 1,309.92 लाख रुपये हो गया, और स्केल ऑपरेशन में ग्रोथ के कारण सेम पीरियड के दौरान मार्जिन 5.24% से 7.87% हो गया। शुद्ध लाभ अर्थात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में 536.8% की वृद्धि हुई, जो फाइनैशियल ईयर 24 की पहली छमाही में 723.37 लाख रुपये हो गया।

## Vaibhav Global Limited

Regd. Off. : K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004;  
Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC004945;  
E-Mail: investor\_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com

### Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Year to Date Ended 30 September 2023

S. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter Ended		Year to date ended
		30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (Net)	70,499.93	64,625.72	136,325.41
2	Other Income	342.10	220.43	1,084.61
3	Total Income	70,842.03	64,846.15	137,410.02
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	4,137.73	3,116.59	8,187.02
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	4,137.73	3,116.59	8,187.02
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	2,902.64	2,303.75	5,859.43
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,992.16	2,171.91	5,853.21
8	Equity Share Capital	3,306.35	3,290.81	3,306.35
9	Earnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing & discontinued operations)			
	i) Basic EPS	1.78	1.40	3.58
	ii) Diluted EPS	1.75	1.37	3.51

**Notes:**  
1 The above unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 September 2023 and year to date ended for the period from 01 April 2023 to 30 September 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 October 2023. These financial results for the quarter ended 30 September 2023 and year to date ended for the period from 01 April 2023 to 30 September 2023 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Parent Company.  
2 These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.  
3 Current tax includes Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable, and deferred tax includes MAT credit entitlement.  
4 Key numbers of standalone financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhav Global Limited are as under:

Particulars	Quarter Ended		Year to date ended
	30.09.2023		30.09.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income	13,840.40	12,926.10	26,962.50
Profit before tax	2,150.08	3,772.27	3,055.50
Total Comprehensive Income	2,086.79	3,723.00	2,766.10

5 The unaudited consolidated financial results include the financial results of the Parent Company and the financial results of the following subsidiaries and step-down subsidiaries (collectively referred as 'the Group'):  
A. VGL Retail Ventures Limited, Mauritius  
a. Shop TJC Limited, UK  
i. Shop LC Global Inc., USA  
ii. Mindful Souls BV, Netherlands (acquired on 26 September 2023)  
B. STS Global Supply Limited, Hong Kong  
a. Pt. STS Bali, Indonesia  
b. STS (Guangzhou) Trading Limited, China  
C. STS Jewels Inc., USA  
D. STS Global Limited, Thailand  
E. STS Global Limited, Japan  
F. Vaibhav Vistar Limited, India  
G. Vaibhav Lifestyle Limited, India  
H. Shop LC GmbH, Germany  
I. Encase Packaging Private Limited, India  
J. Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust  
All Subsidiaries are wholly owned except Encase Packaging Private Limited.  
6 The Parent Company has allotted 248,717 and 436,319 equity shares having face value of ₹ 2/- each for the quarter ended 30 September 2023 and year to date for the period from 01 April 2023 to 30 September 2023 respectively, under the Company's various Employees Stock Option Benefit Schemes through Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust at exercise price ranging from ₹ 2.00 - ₹ 263.56.  
7 Item exceeding 10% of total expenditure (included in other expenses):

Particulars	Quarter Ended		Year to date ended
	30.09.2023		30.09.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Content and Broadcasting expenses	11,064.23	10,490.85	21,678.26

8 In earlier years, the Parent Company received notices from the Income Tax Department ('ITD') under Section 148 of the Act for Assessment Year 2012-13 to Assessment Year 2015-16. The Honorable High Court of Rajasthan had granted stay order on the Parent Company's petition for these Assessment Years mentioned above. Based upon the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings.  
9 The Board of Directors of the Parent Company has declared interim dividend of ₹ 1.50/- per fully paid-up equity shares of ₹ 2/- each. The Company has fixed 07 November 2023 as the record date for payment of interim dividends on equity shares. The said interim dividend will be credited/dispensed to the respective equity shareholders within 30 days of the declaration of dividend. In addition to the above interim dividend of ₹ 1.50/-, an interim dividend of ₹ 1.50 per share i.e., 75% on equity share capital was declared and paid during the current period. Hence total dividend of ₹ 3.00 has been declared during the current period.  
10 The Income Tax Department ('the ITD') conducted a Survey proceeding under section 133A of the Act at the premises of the Parent Company in November 2021. Subsequently, the Parent Company is providing all cooperation and necessary data/documents/information. During the current quarter, the Parent Company received notices under Section 142(1) for Assessment Year 2019-20 to Assessment Year 2022-23 requiring further information. As on date, based upon the nature, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings.  
11 During current quarter, Shop TJC Limited, UK (Wholly owned step-down subsidiary) has acquired 100% stake in Mindful Souls BV, Netherlands from an unrelated party for a total consideration of ₹ 10,951.60 lacs (equivalent EURO 124.33 lacs) (including contingent consideration of ₹ 1,016.52 lacs (equivalent EURO 11.54 lacs)) w.e.f. 26 September 2023. The fair value of the assets and liabilities acquired have been determined provisionally and accounted in accordance with Ind AS 103 - 'Business Combinations'. This acquisition will help the Group in creating synergies through the deep sourcing and manufacturing abilities and will also strengthen the digital businesses.  
12 During previous year, there was a cyber-attack on some Information Technology (IT) infrastructure of the Group. Management took steps to retrieve and restore the systems. All critical operational systems are functioning, however, as a measure of abundant precaution, restricted access and preventive checks were put in place. The Group through an IT service provider also completed the process of investigation to ascertain the nature, extent, and cause of possible data breach, if any. Basis the procedures performed, the Group did not identify any instance of data breach. Basis the legal opinion obtained from the independent solicitor of the respective impacted countries, the Group is in compliance with applicable legal and regulatory requirements. Group management believes that there is no impact on these financial results on account of this incident. The business operations of the Group are continuing in the normal manner post the cyber incident.  
13 The existing rating of Parent Company is CARE A for long term bank facilities have been reaffirmed to CARE A by CARE Ratings Limited which denotes adequate degree of safety regarding timely servicing of financial obligations.  
14 As per Ind AS 108, 'Operating Segments', the Company has disclosed the segment information only as part of the consolidated financial results.  
15 Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.vaibhavglobal.com.

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Sunil Agrawal  
Managing Director  
DIN : 00061142

Place : London  
Date : 30 October, 2023

## GRAVITA


AN INDIAN MULTINATIONAL COMPANY

**GLOBAL FOOTPRINT**  
Network Spread Over 70+ Countries Across 6 Continents

**12 ECO CONSCIOUS**  
State-of-the-art Manufacturing Facilities

**RECYCLING DNA**  
31 Years | 5 Business Verticals | Providing Turnkey Solutions & Consultancy for Recycling Industry

We recycle to save environment



Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023						
S.no	Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Half Year Ended
		30.09.2023 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)
1	Total Income from operations (Net)	850.31	726.74	689.61	1,577.05	1,319.62
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items, Share of Loss of Associate)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional items and/or Extraordinary Items)	67.00	61.16	50.18	128.16	100.15
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	58.84	52.55	44.98	111.39	89.63
5	Total Comprehensive Income for the period	53.63	50.19	42.07	103.82	82.87
6	Equity Share Capital (Face value per share Rs 2/-)	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)					575.12
8	Earnings Per Share (After Tax & minority interest) (of Rs 2/- each)					
	(a) Basic:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87
	(b) Diluted:	8.52	7.70	6.59	16.22	12.87

**Key Numbers of Unaudited Standalone Financial Results**

	Q2 FY23	Q2 FY24	Q2 FY23	Q2 FY24
1 Turnover (Net Sales)	705.31	836.00	618.17	1,359.18
2 Profit Before Tax	50.63	47.94	20.72	98.57
3 Profit After Tax	43.51	38.72	16.43	82.23

**NOTES:**  
a) The above is an extract of the detailed format of quarter / half year ended results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter / half year ended results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the website of the company viz. www.gravitaindia.com  
b) Exception and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.  
c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31<sup>st</sup> October, 2023.

Place : Jaipur  
Date : 31<sup>st</sup> October, 2023

For Gravita India Limited  
Sd/-  
Yogesh Malhotra  
Whole-time Director & CEO  
DIN : 05332393

**स्पंदना स्फूर्ति का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 127% बढ़ा**  
बिजनेस रेमेडीज। गामीय क्षेत्रों पर केंद्रित सूक्ष्म ऋणदाता स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 127 प्रतिशत बढ़कर 125 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध मुनाफा 55 करोड़ रुपये था। स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी आय 106 प्रतिशत बढ़कर 640 करोड़ रुपये हो गई। पिछले साल की समान तिमाही में यह 310 करोड़ रुपये की थी। कंपनी के मुख्य कर्तव्य के अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक शलभ सक्सेना ने कहा, "आनेच्या तिमाही में हमारी प्रबंध-अधीन परिस्तीति (एयूएम) सालाना आधार पर 69 प्रतिशत बढ़कर 9,784 करोड़ रुपये हो गयी।" उन्होंने कहा, "एक प्रबंधन दल के तौर पर हम अब तक हुई प्रगति से आश्चस्त हैं। अब हमें 'विज़न-2025' के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है।"